

प्राचीन विषया के लिए इसका उपयोग
में विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान
का अधिकारी (एसी) द्वारा दिए गए नोट्स
का उपयोग करना; अभियन्ता
का विषय; विभिन्न विषयों का अध्ययन;
स्पष्टीकृत जानकारी का प्राप्ति।

अमृत
१५/१८/२०

कार्यपालक अभियन्ता

प्राचीन कार्य विभाग
कार्य प्रशिक्षण, विहार शास्त्री

अमृत

Sch. XLV-Form No. 134

प्राचीन कार्य विभाग DIVISION

कार्य प्रशिक्षण SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2957

2957

Name of Officer

अमृत कुमार

राजस्थान विद्यालय, राजस्थान

Date of first entry

Date of last entry

1
Name of Work -
Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement -

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1 st or A/c bill				
Name of work:	Constr ⁿ of road from Chero				
Yadav to Lata 702					
Name of agency:-	Pine Global Infra				
	Hanuman Nagar, Kank, Patna				
Block -	Sarnera				
Agreement No. -	SBD-07/2020-21				
Date of start -	04-06-2020				
Date of completion -	03-06-2021				
Actual date of completion -	work in progress				

1	Providing and fixing working	
	benchmark pillars	
	1.365 km	
2	Clearing and grubbing road	
3	land (by manual means) do-do	
	all complete	
	$1 \times 2 \times 5 \times 1.00 = 10.00$	
	$2 \times 2 \times 10 \times 1.00 = 40.00$	
	$6 \times 2 \times 30 \times 1.05 = 378.00$	
	$4 \times 2 \times 30 \times 1.10 = 264.00$	
	$9 \times 2 \times 30 \times 1.00 = 540.00$	
	$6 \times 2 \times 30 \times 1.00 = 360.00$	
		1592.00
		0.159 Ha

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Abstract of cost
(1) Providing and fixing working benchmark pillars do do all complete					
1.365 km vide MB Pg No. - (1)					
					@ Rs 12138=60 /km — Rs 16589=00
(2) Clearing and grubbing road land (By manual means) do do all complete					
0.159 Ha vide MB Pg No. - (1)					
					@ Rs 51161=75 /Ha — Rs 8135=00
(3) Cusfm of embankments with material obtained from same pits with a lift upto 1.5m, with a lead upto 1000m @ 100m do-do all complete					
842.525 m ³ vide MB Pg No. - (2)					
					@ Rs 176=86 /m ³ — Rs 149009=00
(4) Earth work in excavation for str. do-do all complete					
119.336 m ³ vide MB Pg No. - (2) Lt — 119.192 m ³					
					@ Rs 294=70 /m ³ — Rs 35126=00
(5) Providing M-15 PCC (1:2.5:5) as levelling course in foundation do-do all complete					
11.847 m ³ vide MB Pg No. - (3)					
					@ Rs 4409=59 /m ³ — Rs 52240=00
					Rs 261079=00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

1					B.F.=Rs 261079=00
(6)	(2)	Providing PCC in open			
		foundation do do all complete			
	122.423 m ³ wide MB Pg No. - (1)				
	@ Rs 4917=74/m ³ - wide m				Rs 602069=00
(7)	(2)	Providing and laying RCC pipe			
	NP-3 for H.P. culvert do do all				
	Complete				
	30.00 m wide MB Pg No. - (2)				
	@ Rs 3400=36/m				Rs 102011200
(8)	(2)	Providing 1.5mm cement Running			
	incl. carrying of carriage of water				
	do do all complete				
	56.880 m wide MB Pg No. - (2)				
	@ Rs 51=06/m ²				Rs 2904=00
					Rs 962063=00
	Add G.S.T 12% (+)				Rs 116168=00
	Add L.Cess 1% (+)				Rs 9681=00
	(10) (11)				Rs 1093912=00
	10/10/21 J.E				

Material Statement

- (1) Earthwork - 842.523 m³
- (2) Stone chips - 119.66 m³
- (3) Sand - 60.78 m³

10/10/21 J.E X 10/10/21 J.E X 10/10/21 J.E

Continuation